

भारत का राजपत्र **The Gazette of India**

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (I)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 160]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितंबर 10, 1970/भाद्र 19, 1892

No. 160]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 10, 1970/BHADRA 19, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation.

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th September, 1970.

G.S.R. 1340—In exercise of the powers conferred by section 12 of the Government Savings Certificates Act, 1959 (46 of 1959), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Post Office Savings Certificates Rules, 1960 namely :—

1. (i) These rules may be called the Post Office Savings Certificates (Second Amendment) Rules, 1970.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In rule 31-B of the Post Office Savings Certificates Rules, 1960 :—

(a) after sub-rule (ii), the following sub-rules shall be inserted, namely :—

“(iii) The holder of a 12 year National Plan Savings Certificate may continue to hold the certificate after maturity for a further period not exceeding five years and earn interest thereon for each completed period of six months, for which the certificate is retained with the Government after maturity.

(iv) The holder of such a certificate shall, at the time of encashment of that certificate, be entitled to be paid, in addition to the maturity value of the certificate, interest in accordance with Table G below” ;

(b) after Table F, the following Table shall be inserted, namely :—

TABLE G
12 Year National Plan Savings Certificates

Face Value	Amount payable on maturity	Interest payable for a period of retention after maturity of									
		6 months	1 year	1 year and 6 months	2 years	2 years and 6 months	3 years	3 years and 6 months	4 years	4 years and 6 months	5 years
Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
5.00	8.25	.21	.41	.62	.83	1.03	1.24	1.44	1.65	1.86	2.06
10.00	16.50	.41	.83	1.24	1.65	2.06	2.48	2.89	3.30	3.71	4.13
50.00	82.50	2.06	4.13	6.19	8.25	10.31	12.38	14.44	16.50	18.56	20.63
100.00	165.00	4.13	8.25	12.38	16.50	20.63	24.75	28.88	33.00	37.13	41.25
500.00	825.00	20.63	41.25	61.88	82.50	103.13	123.75	144.38	165.00	185.63	206.25
1000.00	1650.00	41.25	82.50	123.75	165.00	206.25	247.50	288.75	330.00	371.25	412.50
5000.00	8250.00	206.25	412.50	618.75	825.00	1031.25	1237.50	1443.75	1650.00	1856.25	2062.50
25000.00	41250.00	1031.25	2062.50	3093.75	4125.00	5156.25	6187.50	7218.75	8250.00	9281.25	10312.50

[No. F9(3)—NS/70]

B. MAITHREYAN, Joint Secy.

वित्त मंत्रालय

(पार्थक्य कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 सितम्बर, 1970

सा० का० नि०. 1340--सरकारी बचत प्रमाणपत्र अधिनियम, 1950 (1959 का 46) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा डाकघर बचत प्रमाणपत्र नियम, 1960 में और आगे संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) ये नियम डाकघर बचत प्रमाणपत्र (द्वितीय संशोधन) नियम, 1970 कह जा सकेंगे।

(2) ये शासकीय राजपत्र में अति प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. डाकघर बचत प्रमाणपत्र नियम, 1960 के नियम 31-ख में (क) उप नियम (ii) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम अन्तःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

“(iii) 12 वरीय राष्ट्रीय योजना बचत प्रमाणपत्र का धारक उस प्रमाणपत्र की परिपक्वता के पश्चात् पांच वर्ष से अधिक की अतिरिक्त कालावधि के लिये धारित किए रह सकेगा और वह छः मास की उस प्रत्येक संपूर्ण कालावधि के लिये जिसमें वह प्रमाणपत्र परिपक्वता के पश्चात् सरकार के पास प्रतिधारित रहता है, उस पर व्याज अर्जित कर सकेगा।

(iv) ऐसे प्रमाणपत्र का धारक उस प्रमाणपत्र को भुक्तिते समय, उस प्रमाणपत्र के परिपक्वता मूल्य के अतिरिक्त नीचे की सारणी छ के अनुसार व्याज सदत्त किये जाने का हकदार होगा ;

(ख) सारणी च के पश्चात् निम्नलिखित सारणी अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

‘‘सारणी छ

12 वर्षीय राष्ट्रीय योजना वचन प्रमाणपत्र

अंकित मूल्य	परिपक्वता पर संकेय रकम	परिपक्वता के पश्चात् प्रतिधारण की निम्नलिखित कालावधि के लिए संकेय व्याज									
		6 मास	1 वर्ष	1 वर्ष और 6 मास	2 वर्ष	2 वर्ष और 6 मास	3 वर्ष	3 वर्ष और 6 मास	4 वर्ष	4 वर्ष और 6 मास	5 वर्ष
रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5.00	8.25	.21	.41	.62	.83	1.03	1.24	1.44	1.65	1.86	2.06
10.00	16.50	.41	.83	1.24	1.65	2.06	2.48	2.89	3.30	3.71	4.13
50.00	82.50	2.06	4.13	6.19	8.25	10.31	12.38	14.44	16.50	18.56	20.63
100.00	165.00	4.13	8.25	12.38	16.50	20.63	24.75	28.88	33.00	37.13	41.25
500.00	825.00	20.63	41.25	61.88	82.50	103.13	123.75	144.38	165.00	185.63	206.25
1000.00	1650.00	41.25	82.50	123.75	165.00	206.25	247.50	288.75	330.00	371.25	412.50
5000.00	8250.00	206.25	412.50	618.75	825.00	1031.25	1237.50	1443.75	1650.00	1856.25	2062.50
25000.00	41250.00	1031.25	2062.50	3093.75	4125.00	5156.25	6187.50	7218.75	8250.00	9281.25	10312.50

[सं० फा० 9(3)-एन० एम० 70]

बी० मैकेयन. संयुक्त सचिव।